



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2012 (श्रावण 13, 1934)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2012 (SRAVANA 13, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. ए. 22012/2/2012-पीएमई--राष्ट्रपति, श्रीमती संयुक्ता राय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को दिनांक 5 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त करती हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. जी.एफ. 627-पीएमई--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के संबंध में श्रीमती संयुक्ता राय, निदेशक को प्रधान मंत्री कार्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. इसे दिनांक 07.07.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. आरएस./3/6/1/2012/66-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (पी एण्ड पी) श्री आर. के. त्रिखा को 16 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप-निदेशक (पी एण्ड पी) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

सं. आरएस/3/6/1/2012/67-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ मुद्रण सहायक श्री मुंशी सिंह को 16 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए-35013/1/2011-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) में श्री सुनील वाजपेयी, आई. आर. एस. (आई. टी. 90054), सी.बी.डी.टी., नई दिल्ली को (वेतन बैंड-4) के वेतनमान 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में दिनांक 9 जुलाई, 2012 के अपराह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हों, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. एस. नायर, उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. फा.3(1)/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अशोक बिहारी आचार्य, अनुभाग अधिकारी को मंत्रालय में वेतन बैंड पी.बी.-3 (रु. 15,600--39,100/-) के साथ ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में दिनांक 25.04.2012 से अगले आदेशों तक, स्थानापन्न हैसियत में तथा नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

ए. मनोहरन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. फा.3(15)/1997-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 25/1/2012-ई.ओ.(एस.एम.1) दिनांक 2 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने श्री देश दीपक वर्मा, भा.प्र.से. (उ.प्र.:78) को दिनांक 02.07.2012 (अपराह्न) से सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. ए.32014/1/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री गंगेश कुमार, सहायक (विधि) को विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में दिनांक 3 जुलाई, 2012 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2

तथा रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में, तदर्थ आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अधीक्षक (विधि) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. ए.32014/2/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने श्रीमती बी. हेमामालिनी, आशुलिपिक ग्रेड "डी" की विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड तथा रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में 5 जुलाई, 2012 की पूर्वाह्न से 6 माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर गोपनीय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति को अनुमोदित किया है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती बी. हेमामालिनी को गोपनीय अधीक्षक के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. ए-32014/5/2012-प्रशा.1 (क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों, जो वर्तमान में, तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 03.03.2011-सी.एस.-2 (क) के अनुसार वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के फलस्वरूप, उन्हें गृह मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त का.ज्ञा. के अनुसार क्र.सं.	कैंडर यूनिट जहां तदर्थ आधार पर प्र.नि.स. के पद पर कार्यरत हैं	नियमित आधार पर प्र.नि.स. के पद पर नियुक्ति की तिथि	उप-संवर्ग जहां अधिकारी तैनात हैं
सर्वश्री/श्रीमती					
1.	शशी सुरी, प्र.नि.स. (तदर्थ)	122	गृह मंत्रालय	20.03.2012 (पूर्वाह्न)	सां. एवं का. का. मंत्रालय
2.	सुब्रमनयन अशोक, प्र.नि.स. (तदर्थ)	166	गृह मंत्रालय	20.03.2012 (पूर्वाह्न)	सां. एवं का. का. मंत्रालय
3.	कान्ता कुमारी, प्र.नि.स. (तदर्थ)	292	गृह मंत्रालय	20.03.2012 (पूर्वाह्न)	पुलिस-बेतार समन्वय निदेशालय
4.	रविन्दर कुमार, प्र.नि.स. (तदर्थ)	591	गृह मंत्रालय	20.03.2012 (पूर्वाह्न)	आई.एस.सी.एस.

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2012

दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. I-18011/14/2011-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के झारखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्र.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से.	स्थायी किए जाने की तिथि
सं.	अधिकारी का नाम	
1.	श्री अनुप टी. मैथ्यू, भा.पु.से. (झारखण्ड:2006)	18.12.2008
2.	श्रीमती अन्नेपु विजय लक्ष्मी, भा.पु.से. (झारखण्ड:2006)	18.12.2008
3.	श्री क्रान्ती कुमार गद्दीदेसी, भा.पु.से. (झारखण्ड:2006)	18.12.2008
4.	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा.पु.से. (झारखण्ड:2006)	18.12.2008
5.	श्री राकेश बंसल, भा.पु.से. (झारखण्ड:2007)	10.12.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. 24012/8/2012-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के एक सदस्य डॉ. सतीश शंकर भिड़े, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमएच:1995) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकार करती हैं।

दीप्ती उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ए.32013/06/2012-प्रशा.1--दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 के आदेश सं. 5/8/2011 के.से.1(यू) के तहत चक्रानुक्रम स्थानांतरण के आधार पर खाद्य एवं लोक वितरण विभाग से इस विभाग में उनके स्थानांतरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री अनुराग शर्मा (सीएसएल सं. 6160) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 5 जुलाई, 2012 पूर्वाह्न से और अगले आदेश होने तक अवर सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2012-प्रशा.1--केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु उनके चयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार दास को वेतन बैंड 37,400--67,000/- रुपए (वेतन बैंड-4) जमा ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में 29 जून, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो पहले हो, नियुक्त करती हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. ए-32013/1/2012-प्रशा.1--केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु उनका चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री उत्कर्ष तिवारी, आई.आर.एस. (सी. एंड सी.ई.:1995) को 8 जून, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए-32013/1/2012-प्रशा.-I (पार्ट-II)--वर्ष, 2012 की सी.एस.एस. के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री राजीव मांझी, सी.एस.एस. को 05 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से 37,400--67,000/- रुपये (पी.बी.-4) + 8,700/- रुपये के ग्रेड पे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक नियुक्त करती हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. ए-32013/6/2012-प्रशा.-I--आदेश सं. 5/3/2012-सी.एस.-I (यू) दिनांक 18 जून, 2012 द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में प्रशिक्षण से वापसी के पश्चात् इस विभाग में उनके आबंटन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री अनिल त्रिपाठी, (सीएसएल सं. 6221) को 09 जून, 2012 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) नियुक्त करती हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. 13017/26/2012-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखंड और महाराष्ट्र की सरकारों की सहमति

से केन्द्र सरकार, श्री आस्तिक कुमार पाण्डेय, भा. प्र. से. (झारखंड : 11) को सुश्री पाटिल मोक्षदा अनिल, भा. पु. से. (महाराष्ट्र : 11) के साथ विवाह के आधार पर, झारखंड संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110021, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं.ओ.आई.-11016/191/2010-पी. एण्ड सी.--आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(ए) के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 के दायित्वों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए, दिनांक 15.11.2010 के केन्द्रीय सूचना आयोग के सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 द्वारा जारी किए गए निदेशों की शर्तों के अनुसार, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

नेहजामांग सिमटे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. 53 (फा. सं. ए-19012/7/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री संतोष कुमार को दिनांक 18.06.2012 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2012

सं. 54 (फा. सं. ए-19011/11/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री अरूण गोयल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब : 85) को दिनांक 28.06.2012 (पूर्वाह्न) से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 04.05.2016 तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रुपये प्रतिमाह ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड (पी बी)-4, (37,400--67,000/- रुपये) में राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (प्रशासन-के.उ.शु. एवं सी. शु.बो.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. 55 (फा. सं. ए-38013/3/2012-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री हवा सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 56 (फा. सं. ए-38013/2/2012-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री बच्चू लाल मीणा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, श्री मनु जे. वेट्टिकान (आईईएस : 2008) को 10.07.2012 (अपराह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, सुश्री सुमित्रा चौधरी (आईईएस) को 01.06.2012 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. ए-19012/6/2006-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री इरशाद हुसैन, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. 7/3/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के. हरिनारायण को 06 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

सं. 7/3/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री रमेश कुमार महलियान को 02 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2012

शुद्धिपत्र

सं. ए-12026/2/2010-एड.-I--13 जुलाई, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम सं. 2 पर उल्लिखित अधिकारी का नाम श्री अनिल कुमार के स्थान पर श्री अनिल शर्मा पढ़ा जाए।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (2388)/एड.-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में उप सचिव (सीएसएस) श्रीमती प्रमिला राघवेन्द्रन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 जून, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-12026/4/2008-एड.-I (भाग-II)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अवधि को 31 दिसम्बर, 2012 तक अथवा नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :-

1. श्री शरद एन. हुलाले
2. श्रीमती उषा गिल
3. श्री नरेन्द्र प्रकाश
4. श्री सुनील कुमार
5. श्री के. जे. भट्ट
6. श्री दाल चंद केम

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.05.2012 के का. जा. सं. 6/5/2011-सीएस-I(एस) में दी गई हैं।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. पीएफजी(803)/2012-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी श्री के. एम. शंकर नारायणन ने दिनांक 05.07.2012 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32011/13/2011-प्रशासन-II के अनुसरण में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपये, ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान पर दिनांक 05.07.2012 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक (मुख्यालय) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2012

सं. ए-19011/7/2009-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.07.2012 के आदेश संख्या 3/1/2012-सीएस-I (डी) (पी-II) के द्वारा वर्ष 2012 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, उप सचिव (सीएसएस) को शामिल किए जाने पर, राष्ट्रपति उनको 05 जुलाई, 2012 के अपराह्न से 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. ए-12011/11/2004-मा.सं.-II--सक्षम प्राधिकारी श्री अनिल कुमार गोयल, सहायक निदेशक (कार्यात्मक) को दिनांक 28.06.2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रुपए ग्रेड पे 4,800/- रुपए में उर्वरक विभाग में पदोन्नति आधार पर सहायक निदेशक (लेखा), समूह 'ख' (राजपत्रित) पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (i) कि श्री ए. के. गोयल को उक्त तारीख के अनुसार उपलब्ध रिक्ति पर पदोन्नत किया गया है और वे किसी पद पर क्रमिक पदोन्नति का आधिकारिक रूप से दावा नहीं करेंगे जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में उपलब्ध नहीं है।
- (ii) कि यदि श्री डी. के. शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यात्मक) जो श्री ए. के. गोयल से वरिष्ठ हैं, को उनकी समयावधि के संपूर्ण होने के बाद/पहले संवर्ग में वापिस ले लिया जाता है तो श्री ए. के. गोयल को दिनांक 27.06.2012 के उनके वचन-पत्र के अनुसार यदि सहायक निदेशक (लेखा) की ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं होती है तो उन्हें सहायक निदेशक

(लेखा) के पद से वापिस सहायक निदेशक (कार्यात्मक) के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

राजीव कुमार, उप सचिव

सं. ए-12011/11/2004-मा.सं.-II--सक्षम प्राधिकारी श्री देव कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यात्मक), जो वर्तमान में उर्वरक समन्वय समिति में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को क्रम में निचले नियम के अंतर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ देते हुए दिनांक 28.06.2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रुपए ग्रेड पे 4,800/- रुपए में उर्वरक विभाग में सहायक निदेशक (लेखा), समूह 'ख' (राजपत्रित) पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजीव कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. ए-19011/06/2010-एचआर-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 अप्रैल, 2012 और 25 जून, 2012 के पत्र सं. 9/20/2012-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदया डॉ. वी. राजगोपालन, आईएएस (उ.प्र. : 78), को उनके द्वारा धारित पद का 17.04.2012 से स्व स्थाने आधार पर अस्थायी रूप से उन्नत बनाते हुए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 12/5/2007-एसओ--इस मंत्रालय की दिनांक 12 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 12/12/2004-एसओ के अनुक्रमण में, राष्ट्रपति श्री पी. सोमा शेखर रेड्डी, आईआरएस (आईटी : 91) का कार्यकाल कोयला मंत्रालय में निदेशक के रूप में 11.07.2012 से आगे तीन महीनों की अवधि के लिए अर्थात् 11.10.2012 तक बढ़ाते हैं।

वी पेदन्ना, निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 29 मई 2012

सं. ए-19011/6/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति श्रीमती अनुराधा प्रसाद, (आईडीएस : 1986) को कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

2. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, (आईडीएस : 1986) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार 28.05.2012 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है। इस मंत्रालय में उनका केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 27.05.2017 तक होगा।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जुलाई 2012

सं. ए-12025/7/2009-एन टी एच(स्था.)--राष्ट्रपति, श्री शिव कुमार यादव को 25.05.2012 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड और 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक एस बी (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. ए-12011/7/2010-स्था.--केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री रमेश अभिषेक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बीएच : 82), सदस्य, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई की प्रतिनियुक्ति को आगे बढ़ाने और उन्हें वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त प्रभार को भी दिनांक 09 जुलाई, 2012 से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-35011/02/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कार्यरत डॉ. जॉर्ज जॉन, वैज्ञानिक, 'एच' की सेवा को 67,000--79,000/- रुपए के एचएजी वेतनमान में, उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.07.2012 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष आगे बढ़ाते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. ए-12025/40/2011-सीएचएस-III--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति डॉ. संदीप सिंह चौहान को दिनांक 20.07.2011 के पूर्वाह्न से आगे के आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शरीर क्रिया-विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/58/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सीमा को दिनांक 01.09.2011 के पूर्वाह्न

से आगे के आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में रोगविज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

सं. ए-38016/04/2011-स्था.-III--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तैनात अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी श्री रमेश चन्द्र कक्कड़, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

सं. 38013/06/2012-स्था.-I--श्री के. सत्या कुमार, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38013/05/2012-स्था.-I--श्री विजय कुमार वधवा, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/05/2012-स्था.-I--श्री देवेन्द्र सिंह, प्रधान निजी सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/07/2012-स्था.-I--श्री तीर्थ जीत सिंह चावला, अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/06/2012-स्था.-I--श्री सुकुमार, उप सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/04/2012-स्था.-I--श्री राजिन्द्र कुमार गाबा, निदेशक, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. 27-3020/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री बलविन्दर कुमार, भा.प्र.से. (उ प्र : 81) को (67,000--79,000) के वेतनमान पर अपर सचिव के रूप में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 6 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 27-2856/2009-स्था.-I--वर्ष 2012 की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयनित सूची में उनका नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप और 5 जुलाई, 2012 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.आ. सं. 31/1/2012-सी.एस.1 (डी) (पी-II) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री सर्वजीत सिंह अहलुवालिया को कृषि एवं सहकारिता विभाग में ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये के साथ वेतन बैंड-4 (37,400--67,000 रुपये) में सी एस एस के वरिष्ठ चयन ग्रेड केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के चयन ग्रेड (निदेशक) के रूप में 6 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. ए-19012/6/2009-ईए-I--कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के सम्बद्ध कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में सदस्य (गैर-सरकारी) के रूप में नियुक्ति की अवधि के पूरा होने के पश्चात डॉ. राजबीर सिंह को 9.7.2012 के अपराह्न से पदमुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए-19012/8/2012-ईए-I--आर्थिक मामले विभाग के फा. सं. 13016/4/2012-आईईएस के तहत जारी दिनांक 29.5.2012 के आदेश सं. पी-6/2012 के जरिए श्री रामेश्वर सिंह की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में प्रोन्नति तथा नियुक्ति के अनुसरण में उन्हें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये)+6,600/- रुपये (ग्रेड पे) में 1.6.2012 के पूर्वाह्न से उप निदेशक (आईईएस के एसटीएस) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. 32012/03/2011-पी.पी.(स्था.)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक निदेशकों (पौध रोग विज्ञान) को पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय में पदोन्नति आधार पर उप निदेशक (पौध रोग विज्ञान), (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) के पद पर वेतनमान-3 (15,600-39,100/- रुपये) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये निम्नलिखित सारणी में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डॉ. संदीप पाण्डे	13.02.2012
2.	श्री एस. के. वर्मा	23.04.2012
3.	श्री सी ईलागोवन	13.02.2012
4.	श्री ओम प्रकाश वर्मा	18.04.2012
5.	डॉ. संजय आर्या	14.02.2012

एम. एल. अटल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. 19011/623/2012-स्था. II--राष्ट्रपति द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के दिनांक 20/06/2012 के कार्यालय आदेश सं. 12015/1/2012-आईएसएस के अनुसरण में सुश्री अरूंधति सिंह, एनएफएसजी अधिकारी, भारतीय सांख्यिकी सेवा, को वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8,700/- के साथ (37,400-67,000) वेतनमान पर, दिनांक 21.06.2012 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ई-11015/1/2010-हिन्दी--पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर, 2011 को जारी की गई अधिसूचना के अनुक्रम में एतद्वारा निम्नलिखित आंशिक परिवर्तन/संशोधन किया जाता है:--

सदस्य क्रम सं.	पूर्व में नाम व पता	वर्तमान में संशोधित नाम व पता
7.	श्री मोहन प्रकाश दुबे 25/5, सेक्टर-1, पुष्प बिहार, नई दिल्ली-110017.	श्री राम नरेश तिवारी 797/1 सी पिण्डी वासा भवन, वाघम्बरी रोड, इलाहाबाद- 211006. मो.-09415443173

सदस्य क्रम सं. पूर्व में नाम व पता वर्तमान में संशोधित नाम व पता

9.	श्री अनुराग चतुर्वेदी लेखक, कवि, पत्रकार और सामाजिक कार्य-कर्ता, 9 हिमालय, एन. सी. एच. कॉलोनी, लोखण्डवाला टाउनशिप, कंजूर मार्ग (पश्चिम) मुंबई-400078	श्री अनुराग चतुर्वेदी लेखक, कवि, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, 1104, क्रिमसन टॉवर कंजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई-400101 नि. 022-29660044 मो.-09821004824
----	---	--

अवतार सिंह सहोता, आर्थिक सलाहकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 28 जून 2012

सं० पीएफ-536/प्रशासन-I--श्री एन. पी. केशवन, अवर सचिव, दूरसंचार विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

डॉ. अनिल कुमार, निदेशक

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 02 जुलाई 2012

सं. 3(12)/2010-का. I--राष्ट्रपति जी ने श्री विनोद कुमार आहुजा, उप निदेशक (स्वस्थाने/वैयक्तिक) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 29.06.2012 के पूर्वाह्न से 6,600/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/- रुपए के पे बैंड-3 में नियमित आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नति पर नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. 4(846)/2009-कार्मिक. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.06.2005 के आदेश संख्या 10/3/2004-सीएस. II (खण्ड-I) के अनुसरण में श्रीमती शकुन्तला गुप्ता, निजी सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 01.01.2012 से 5,400/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/- रुपए के पे बैंड-3 का अकृत्यिक वेतनमान दिया है।

2. श्रीमती शकुन्तला गुप्ता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.11.2009 के आदेश संख्या 10/3/2004-सीएस. II (खण्ड) के अनुसार वेतन निर्धारण के लाभ के पात्र होंगी।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2012

सं. ए-32022/3/2012-प्रशासन--राष्ट्रपति जी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/2/2012-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में श्री बाल्मीकी प्रसाद, उपसचिव (सीएसएस) को वर्ष 2012 की वरिष्ठ प्रवरण ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 05.07.2012 से नागर विमानन मंत्रालय में वेतन बैंड 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) तथा ग्रेड वेतन 8,700/- रुपए में निदेशक (सीएसएस) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ओमानन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2012

सं. ई(जी.पी.)2011/3/1--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे भंडार विभाग के निम्नलिखित 47 ग्रुप-बी अधिकारियों को उल्लिखित रेलवे पर दिनांक 01.03.2012 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई. आर. एस. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2010-11 के लिए पैन्ल

क्र. सं.	नाम	रेलवे
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	सईद शेर मोहम्मद	उ.प.रे.
2.	आर. आर. पाटिल	म.रे.
3.	डी. रामालिंगम	द.रे.
4.	दीपक यादव	उ.म.रे.
5.	एम. के. घोषाल	पू.रे.
6.	राकेश कोचर	डी.रे.का.
7.	राजेश लाल	पूर्वोत्तर रे.
8.	पी. के. दास	पू.म.रे.
9.	टी. के. घोष	चि.रे.का.
10.	आर. सत्यनारायनन	द.रे.
11.	बी. भट्टाचार्या	पू.रे.
12.	एस. भट्टाचार्या	पू.रे.
13.	एस. जी. करान्दे (अ.जा.)	प.रे.
14.	के. विजय कुमार	द.म.रे.

1	2	3
15.	नायब सिंह ढिंडसा	रे.डि.का.
16.	एन. वी. रमेश बाबू (अ.जा.)	द.म.रे.
17.	पी. बी. सिंह	पू.म.रे
18.	जी. पी. आनन्द (अ.जा.)	म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
19.	ददा श्री रामू (अ.जा.)	रे.डि.का. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
20.	जे. के. ज्ञान (अ.जा.)	पू.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
21.	ओम् कुमार (अ.जा.)	डी.आ.का. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
22.	बी. आर. मीना (अ.ज.जा.)	डी.रे.का. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
23.	आर. एम. नाईक	म.रे.
24.	एस. के. जैन	उ.प.रे

2011-12 के लिए पैन्ल

1.	जितेन्द्र सिंह	उ.रे.
2.	निरूपम तिवारी	म.रे.
3.	वेंकटरमन जी.	द.रे.
4.	सी. एस. त्यागी	उ.प.रे.
5.	एस. एन. तिवारी	प.म.रे.
6.	रमेश कुमार नजकानी	डी.रे.का.
7.	डी. एल. शुक्ला	डी.रे.का.
8.	एस. जी. मखीजा	म.रे.
9.	नरीन्द्र सिंह	रे.डि.का.
10.	संदीप सक्सेना	प.म.रे.
11.	एस. आर. प्रसाद	पू.सी.रे.
12.	एन. के. गौतम	उ.रे.
13.	एस. आर. शेल्के	म.रे.
14.	एस. वी. भाष्कर	म.रे.
15.	एस. के. पिल्लई	प.म.रे.
16.	यू. के. एस. चौहान	प.म.रे.
17.	पद्मालोचनी ए. पी.	द.रे.
18.	शिवारामाकृष्णन एस.	द.रे.
19.	वाई. सुकन्ना (अ.ज.जा.)	द.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

1	2	3
20.	ए. एम. सोनावाने (अ.जा.)	द.प.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
21.	के. बी. तिरुपतैया (अ.ज.जा.)	द.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
22.	हरदेव बैठा (अ.जा.)	पूर्वोत्तर रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
23.	हीरा लाल (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2012

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--श्री विधु कश्यप, अध्यक्ष, मानव संसाधन सुधार समिति, रेलवे बोर्ड 04.07.2012 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- श्री ए. के. सिंह, अपर सदस्य (आरएस)
- श्री ए. के. निगम, सलाहकार (औद्योगिक संबंध)
- श्री एम. सी. झा, संयुक्त निदेशक
- श्री अनिल कुमार जैन, अनुभाग अधिकारी
- श्री कुंजु भूपति, अनुभाग अधिकारी
- श्री राम तेग राम, अनुभाग अधिकारी

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. ए-12025/1/2012-ई-II--राष्ट्रपति, श्री धन वीर साहू को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 02.04.2012 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- ग्रेड पे में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 47/2/2011-आर एंड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 82(5) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री एस. के. चतुर्वेदी को 31 मई, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

प्रणय कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. 15/2012 (फाईल सं. ए-32013/3/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति (समूह क) की सिफारिशों पर, केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह क) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को अगले आदेशों के होने तक उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 37,000--67,000/- रुपए के वेतनमान में 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सुराता राम	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम. के. खण्डेलवाल	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री रशिका शरन	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री राकेश कुमार	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री इशान शरन	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री डी. के. श्रीवास्तव	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
7.	श्री राम चंद्र	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
8.	श्री ब्रीफ ली लिंगखोई	31.05.2012 (पूर्वाह्न)
9.	श्री भुपिन्दर सिंह	31.05.2012 (पूर्वाह्न)

मधुकर सूद, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. ए-32013/1/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 मार्च, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011 सीएस-I (यू) द्वारा भेजे गए अनुसार अवर सचिव (तदर्थ) के ग्रेड से अनुभाग अधिकारी (सीएसए) के स्थायी ग्रेड में उनके प्रत्यावर्तन के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप श्री एस. रवि कुमार, सीएसएस (सीएसएल संख्या 6883) को अवर सचिव (तदर्थ) दिनांक 03.07.2012 (अपराह्न) से अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के स्थायी ग्रेड में प्रत्यावर्तित करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 12th July 2012

No. A. 22012/2/2012-PME—The President is pleased to appoint Smt. Sanjukta Ray, CSS, as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 5th July 2012, until further orders.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 13th July 2012

No. GF. 627-PME—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Smt. Sanjukta Ray, Director is designated as Central Public Information Officer in respect of all matters pertaining to the Prime Minister's Office.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 07.07.2009.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 17th July 2012

No. RS/3/6/1/2012/66-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R.K. Trikha, Assistant Director (P&P) in the Rajya Sabha Secretariat in the grade of Deputy Director (P&P) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July, 2012 until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/6/1/2012/67-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Munshi Singh, Senior Printing Assistant in the Rajya Sabha Secretariat in the grade of Printing Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July, 2012 until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th July 2012

No. A-35013/1/2011-Ad—The President is pleased to appoint Shri Sunil Bajpai, IRS (IT : 90054), CBDT, New Delhi as Director in the National Security Council Secretariat (NSCS) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade

Pay of Rs. 8,700/- (PB-4) on deputation basis for a period of 3 years or until further orders whichever is earlier, with effect from the afternoon of 9th July 2012.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 26th April 2012

No. 3(1)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Asok Behary Acharya, Section Officer in the Ministry as Under Secretary in an officiating capacity and on regular basis in the Pay Band PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 25.04.2012, until further orders.

A. MANOHARAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd July 2012

No. 3(15)/1997-Admn.—In pursuance of DoPT's Communication No. 25/1/2012-EO(SM.1) dated 2nd July, 2012 the President is pleased to appoint Shri Desh Deepak Verma, IAS (UP: 78), as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, with effect from 02.07.2012 (AN).

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 9th July 2012

No. A-32014/1/2005-Admn.I(L.D.)—The Competent Authority is pleased to appoint Shri Gangesh Kumar, Assistant (Legal) to officiate as Superintendent (Legal) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 3rd July, 2012 or until further orders.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Superintendent (Legal) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

The 13th July 2012

No. A. 32014/2/2005-Admn.I(L.D.)—The Competent Authority in the Legislative Department has approved the appointment of Smt. B. Hemamalini, Stenographer Grade 'D' to the post of Confidential Superintendent in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on

ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 5th July, 2012 and until further orders.

2. This adhoc appointment will not bestow on Smt. B. Hemamalini any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Confidential Superintendent nor the ad hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the the grade or for her promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th July 2012

No. A-32014/5/2012-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint the following Private Secretaries of CSSS Cadre as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs Cadre Unit, consequent upon inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary for the Select List Year 2010 in terms of the DoPT's OM No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20.03.2012:—

S. No	Name and Designation	Sl. No. as per DoPT's where above referred O. M.	Cadre unit where working as PS/PPS (adhoc)	Date of appointment as regular PPS	Sub-Cadre where the officer is posted
	S/Shri/Smt.				
1.	Shashi Suri, PPS (Adhoc)	122	MHA	20.03.2012 (FN)	M/o Stat. & PI
2.	Subramanian Ashok, PPS (Adhoc)	166	MHA	20.03.2012 (FN)	M/o Stat. & PI
3.	Kanta Kumari, PPS (Adhoc)	292	MHA	20.03.2012 (FN)	DC (PW)
4.	Ravinder Kumar, PPS (Adhoc)	591	MHA	20.03.2012 (FN)	ISCS

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th July 2012

No. I-18011/14/2011/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the Cadre of Jharkhand with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Due date of confirmation in the normal course
1	2	3
	S/Shri	
1.	Anoop T. Mathew, IPS (JH: 2006)	18.12.2008
2.	Smt. Annepu Vijay Laxmi, IPS (JH: 2006)	18.12.2008

1	2	3
	S/Shri	
3.	Kranti Kumar Gadidesi, IPS (JH: 2006)	18.12.2008
4.	Narendra Kumar Singh IPS (JH: 2006)	18.12.2008
5.	Rakesh Bansal, IPS (JH: 2007)	10.12.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110001, the 16th July 2012

No. 24012/8/2012-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Satish Shankar Bhide, IAS (MH:1995), a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of Maharashtra from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of this notification.

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services)

New Delhi, the 5th July 2012

No. A-32013/6/2012-Ad.I—Consequent upon his transfer from Department of Food & Public Distribution to this Department on rotational transfer basis vide Order No. 5/8/2011-CS.I(U) dated 25th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Anurag Sharma (CSL No. 6160) Under Secretary (Adhoc) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 5th July, 2012 and until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

The 13th July 2012

No. A-32013/3/2012-Ad.I—Consequent upon his selection for appointment as Joint Secretary under the Central Staffing Scheme, the President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Das, IAS (MP: 86), as Joint Secretary in Department of Personnel and Training, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from forenoon of 29th June, 2012, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

The 18th July 2012

No. A-32013/1/2012-Ad-I—Consequent upon his selection for appointment as Director under the Central Staffing Scheme, the President is pleased to appoint Shri Utkaarsh Tiwari, IRS (C&CE:1995) as Director in

Department of Personnel and Training with effect from forenoon of 8th June, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

The 20th July 2012

No. A-32013/1/2012-Ad-I(Pt.II)—Consequent upon inclusion of his name in Senior Selection Grade (Director) Select List of the CSS for the Year 2012, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Manjhi, CSS, as Director, in Department of Personnel and Training, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from forenoon of 5th July, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

No. A-32013/6/2012-Ad-I—Consequent upon his allocation to this Department after return from training in National Institute of Financial Management, Faridabad, vide Order No. 5/3/2012-CS-I(U) dated 18th June, 2012, the President is pleased to appoint Shri Anil Tripathi (CSL No. 6221) Under Secretary (Ad hoc) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 9th June, 2012 and until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

New Delhi, the 19th July 2012

No. 13017/26/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Jharkhand and Maharashtra, the Central Govt. hereby transfers Shri Astik Kumar Pandey, IAS (JH : 11) from Jharkhand Cadre to Maharashtra Cadre on the ground of marriage to Ms. Patil Mokshada Anil, IPS (MH : 11).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi-110021, the 17th July 2012

No. OI-11016/191/2010-P&C—In terms of Directives issued by Central Information Commission, vide No. CIC/AT/D/10/000111 dated 15.11.2010 under Section 19 (8) (a) of RTI Act, 2005, for time bound implementation of Section 4 obligations under the Act, Economic Adviser in the Ministry of Overseas Indian Affairs is designated as the Transparency Officer for the Ministry of Overseas Indian Affairs.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 26th June 2012

No. 53 : (F.No. A-19012/7/2012-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years w.e.f. 18.06.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 28th June 2012

No. 54 : (F. No. A-19011/11/2012-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Arun Goel, IAS (PB : 85) as Joint Secretary (Admn.-CBEC), in the Department of Revenue in the Pay Band PB-4, (Rs. 37,400—67,000/-) with the Grade Pay of Rs. 10,000/- per month, with effect from 28.06.2012 (FN) for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 04.05.2016 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 3rd July 2012

No. 55 : (F. No. A-38013/3/2012-Ad.-I)—Shri Hawa Singh, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Under Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.06.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 56 : (F. No. A-38013/2/2012-Ad.-I)—Shri Bachchu Lal Meena, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Under Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.06.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 12th July 2012

No. A-22011/1/2012-Ad.-IA—The President is pleased to appoint Shri Manu J. Vettickan (IES : 2008) as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 10.07.2012 (AN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 24th July 2012

No. A-22011/1/2012-Ad.-IA—The President is pleased to appoint Ms. Sumitra Chowdhury (IES) as Deputy Director

in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs
w.e.f. 01.06.2012 (FN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 18th July 2012

No. A-19012/2/2006-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 the Central Government, hereby, authorizes Shri Irshad Hussain, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Nagpur, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, in addition to his own charge with immediate effect.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 24th July 2012

No. 7/3/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K. Harinarayana as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Madurai, for a period of five years with effect from 06.07.2012 (FN) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

No. 7/3/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Ramesh Kumar Mahaliyan as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, for a period of five years with effect from 02.07.2012 (FN) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 18th July 2012

CORRIGENDUM

No. A-12026/2/2010-Ad.-I—In partial modification of earlier notification of even number dated 13th July, 2012, the name of the officer mentioned at serial number 2 may be read as Shri Anil Sharma instead of Shri Anil Kumar.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

No. PFG(2388)/Ad.-I—Smt. Pramila Raghavendran, Deputy Secreary (CSS), Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of

superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 30th June, 2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

The 19th July 2012

No. A-12026/4/2008-Admn.I (Vol.II)—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad hoc basis upto 31st December, 2012 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

1. Shri Sharad N. Hulale
2. Smt. Usha Gill
3. Shri Narender Prakash
4. Shri Sunil Kumar
5. Shri K. J. Bhatt
6. Shri Dal Chand Kaim

2. All other terms and conditions for ad hoc promotion of the above officials will be same as stipulated in the DoP&T's OM No. 6/5/2011-CS.I(S) dated 29.5.2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110011, the 16th July 2012

No. PFG(803)/2012-Admn-II—Consequent upon his promotion to the Junior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in pursuance to the Office Order No. A-32011/13/2011-Ad-II dated 5.7.2012, Shri K. M. Shankara Narayanan has assumed the charge of the post of Assistant Director (Head Quarter) w.e.f. 5.7.2012 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 10th July 2012

No. A-19011/7/2009-Est.—On his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2012 vide Department of Personnel & Training Order No. 3/1/2012-CS.I(D)(p.II) dated 5.7.2012, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar V. Patil, Deputy Secretary (CSS) as Director, in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the afternoon of 5th July, 2012.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 3rd July 2012

No. A-12011/11/2004-HR-II—The Competent Authority is pleased to appoint Sh. Anil Kumar Goel, Assistant Director (Functional) to the post of Assistant Director (Accounts), Group 'B' (Gazetted) in the Pay Band (PB-2) 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on promotion basis w.e.f. 28.6.2012 (F/N) in the Department of Fertilizers.

2. The promotion is subject to the following conditions :

- (i) that Sh. A. K. Goel has been promoted in an available vacancy as on date and he will not claim as a matter of right continued promotion in a post which is not available under a particular situation.
- (ii) that in case Sh. D. K. Sharma, Assistant Director (Functional) who is senior to Sh. A. K. Goel reverts back to the cadre after/before completion of his tenure, Sh. A. K. Goel will be reverted from the post of Assistant Director (Accounts) to the post of Assistant Director (Functional) in case there is no vacancy in the Grade of Assistant Director (Accounts) as per his undertaking dated 27.6.2012.

RAJIVA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-12011/11/2004-HR-II—The Competent Authority is pleased to grant the benefit of proforma promotion under the next below Rule to Sh. Dev Kumar Sharma, Assistant Director (Functional) to the post of Assistant Director (Accounts), Group 'B' (Gazetted) in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 28.6.2012 (F/N) in the Department of Fertilizers and who is presently on deputation to the post of Accounts Officer in Fertilizer Industry Coordination Committee.

RAJIVA KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th July 2012

No. A-19011/06/2010-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 9/20/2012-EO(SM.I) dated 17th April, 2012 and dated 25th June, 2012, the President is pleased to appoint Dr. V. Rajagopalan, IAS (UP: 78), as Special Secretary and Financial Adviser in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, on in-situ basis by temporarily upgrading the post held by the Officer w.e.f. 17.4.2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 12/5/2007-ASO—In continuation of this Ministry's Notification No. 12/12/2004-ASO dated 12th July, 2007, the President is pleased to extend the tenure of Shri P. Soma

Shekar Reddy, IRS (IT: 91) as Director in the Ministry of Coal for the period of three months beyond 11.7.2012 i.e. upto 11.10.2012.

V. PEDDANNA, Dir.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 29th May 2012

No. A-19011/7/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Prasad, (IDAS:1986) as Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries for a period of five years w.e.f. from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. Smt. Anuradha Prasad, (IDAS:1986) has assumed the charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 28.5.2012 (F/N). Her Central Deputation tenure in this Ministry will be upto 27.5.2017.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th July 2012

No. A-12025/7/2009-NTH (Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Shiv Kumar Yadav to the post of Scientist SB (Electrical) in the National Test House, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 25.5.2012 (F.N.).

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 13th July 2012

No. A-12011/7/2010-Estt.—In pursuance of the approval of Appointments Committee of the Cabinet and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby approves the extension of deputation tenure of Shri Ramesh Abhishek, IAS (BH: 82), Member, Forward Markets Commission, Mumbai and also continuation of the additional charge of the post of Chairman, Forward Markets Commission for a period of three months with effect from 9th July, 2012 and till further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 19th July 2012

No. A-35011/02/2011-Estt.—The President is pleased to extend the service of Dr. George John, Scientist 'H', Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology in the HAG Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/-

for a period of one year, beyond the age of his superannuation i.e. 31.07.2012 or until further orders, whichever is earlier.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 17th July 2012

No. A-12025/40/11-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sandeep Singh Chouhan to the post of Assistant Professor in the speciality of Physiology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 20.07.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/58/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Seema to the post of Assistant Professor in the speciality of Pathology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.09.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th June 2012

No. A-38016/04/2011-Estt.III—On the attaining the age of superannuation, Sh. Ramesh Chander Kakkar, Sr. Statistical Officer an officer of Subordinate Statistical Service posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from Government Service w.e.f. 30.06.2012 (AN).

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 29th June 2012

No. 38013/06/2012-Estt. I—Shri K. Satya Kumar, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38013/05/2012-Estt. I—Shri Vijay Kumar Wadhwa, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect

from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38012/05/2012-Estt. I—Shri Devendra Singh, Principal Private Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38012/07/2012-Estt. I—Shri Terath Jeet Singh Chawla, Under Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38012/06/2012-Estt. I—Shri Sukumar, Deputy Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38012/04/2012-Estt.I—Shri Rajender Kumar Gaba, Director in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 9th July 2012

No. 27-3020/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Balvender Kumar, IAS (UP:81) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in HAG (Rs. 67,000—79,000), with effect from the forenoon of 6th July, 2012 and until further orders.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 27-2856/2009 E-I—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List for the Year 2012, and in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 3/1/2012-CS.I(D) (P.II) dated 5th July 2012, the President is pleased to appoint Shri Sarvjit Singh Ahluwalia, Selection Grade (Deputy Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) as Senior Selection

Grade (Director) of CSS in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000) with Grade Pay Rs. 8,700/- in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 6th July, 2012.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th July 2012

No. A-19012/6/2009-EA—Consequent upon completion of his term of appointment as Member (Non-Official) in the Commission for Agricultural Costs and Prices, an attached office of Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi, Dr. Raj Vir Singh is relieved of the charge of the post with effect from the afternoon of 09.07.2012.

A. K. ARORA, Under Secy.

The 11th July 2012

No. A-19012/8/2012-EA—Consequent upon his promotion and posting in the Commission for Agricultural Costs and Prices vide Department of Economic Affairs Order No. P-6/2012 in File No. 13016/4/2012-IES dated 29.5.2012, Shri Rameshwar Singh is appointed as Deputy Director (STS of IES) in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (G.P.) in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture & Cooperation, w.e.f. 01.06.2012 (FN).

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2012

No. 32012/03/2011-PP-Estt.—The President is pleased to appoint the following Assistant Directors (Plant Pathology) to the post of Deputy Director (Plant Pathology), (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on promotion basis in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, with effect from the dates indicated against their names in the following table:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Dr. Sandeep Pandey	13.02.2012
2.	Shri S. K. Verma	23.04.2012
3.	Shri C. Elangovan	13.02.2012
4.	Shri Om Prakash Varma	18.04.2012
5.	Dr. Sanjay Arya	14.02.2012

M. L. ATAL, Under Secy.

New Delhi, the 18th July 2012

No. 19011/623/2012-E.II—In pursuance to Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/1/2012-ISS dated 20/6/2012, the President is pleased to appoint Ms. Arundhati Singh, NFSG Officer of the Indian Statistical Service, as Director in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000) with Grade Pay Rs. 8,700/- in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from forenoon of 21.06.2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 19th July 2012

CORRIGENDUM

No. E-11015/1/2010-IIindi—In continuation of previous Notification dated 28 November, 2011 even File No. issued by the Ministry of Panchayati Raj, the following partial changes/amendments is hereby made in the notification :—

Number	Previous Name/ Address	Present amended Name and Address
7.	Shri Mohan Prakash Dube, 25/5, Sector-I Pushp Vihar, New Delhi-110017	Shri Ram Naresh Tiwari 797/1C Pindi Vasa Bhawan, Vaghambari Road, Allahabad-211006 M. 09415443173
9.	Shri Anurag Chaturvedi, Writer, Poet, Journalist and Social Activist 9, Himalaya, N.C.H. Colony, Kanjur Marg, (West), Mumbai-400078	Shri Anurag Chaturvedi, Writer, Poet, Journalist and Social Activist 1104, Crimson Tower, Lokhandwala Township, Kandiwali (East), Mumbai-400101 Res. No. 022-29660044 M. 9821004824

AVTAR SINGH SAHOTA, Economic Adviser

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 28th June 2012

No. PF. 536/Admn.I—On attaining the age of Superannuation, Shri N. P. Kesavan, Under Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 30.6.2012.

ANIL KUMAR, Dir.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 2nd July 2012

No. 3(12)/2010-P.I.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Ahuja, Deputy Director (in-situ/personal) on promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Electronics & Information Technology in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. with effect from forenoon of 29.6.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 13th July 2012

No. 4(846)/2009-Pers.I—In pursuance of DoPT's Order No. 10/3/2004-CS.II(Pt.1) dated 24.6.2005, Smt. Shakuntla Gupta, Private Secretary, Department of Electronics & Information Technology is placed in the Non-Functional Scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- p.m. w.e.f. 1.1.2012.

2. Smt. Shakuntla Gupta, Private Secretary is also entitled for fixation of pay in pursuance of DoPT's Order No. 10/3/2004-CS-II (Pt.) dated 24.11.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 11th July 2012

No. A-32022/3/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Balmiki Prasad, Deputy Secretary (CSS) as Director of CSS in the Ministry of Civil Aviation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 5.7.2012 (FN), consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2012, in pursuance to DoPT's O.M. No. 3/2/2012-CS.I(D) dated 3.7.2012.

OMA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th May 2012

No. E(GP)2011/3/1—The President is pleased to appoint the under mentioned 47 Group 'B' Officers of Stores Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of

Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 1.3.2012 on the Railways mentioned as under :—

PANEL FOR 2010-2011

Sl. No.	Name	Railways
1	2	3
	S/Shri	
1.	Syed Sher Mohd.	NWR
2.	R. R. Patil	CR
3.	D. Ramalingam	SR
4.	Deepak Yadav	NCR
5.	M. K. Ghosal	ER
6.	Rakesh Kochar	DLW
7.	Rajesh Lal	NER
8.	P. K. Das	ECR
9.	T. K. Ghosh	CLW
10.	Sathyanarayanan R.	SR
11.	B. Bhattacharya	ER
12.	S. Bhattacharya	ER
13.	S. G. Karande (SC)	WR
14.	K. Vijaya Kumar	SCR
15.	Naib Singh Dhindsa	RCF
16.	N. V. Ramesh Babu (SC)	SCR
17.	P. B. Singh	ECR
18.	G. P. Anand (SC)	CR Promoted against SC vacancy
19.	Dadda Shri Ramu (SC)	RCF Promoted against SC vacancy
20.	J. K. Gayan (SC)	ER Promoted against SC vacancy
21.	Om Kumar (SC)	DMW Promoted against SC vacancy
22.	B. R. Meena (ST)	DLW Promoted against ST vacancy
23.	R. M. Naik	CR
24.	S. K. Jain	NWR

PANEL FOR 2011-2012

1	2	3
	S/Shri	
1.	Jitendra Singh	NR
2.	Nirupam Tiwari	CR
3.	Venkataraman G.	SR
4.	C. S. Tyagi	NWR
5.	S. N. Tiwari	WCR
6.	Ramesh Kumar Nazkani	DLW
7.	D. L. Shukla	DLW
8.	S. G. Makhija	CR
9.	Narinder Singh	RCF
10.	Sandeep Saxena	WCR
11.	S. R. Prasad	NFR
12.	N. K. Gautam	NR
13.	S. R. Shelke	CR
14.	S. V. Bhasker	CR
15.	S. K. Pillai	WCR
16.	U. K. S. Chauhan	WCR
17.	Padmalochani A. P.	SR
18.	Sivaramakrishnan, S.	SR
19.	Y. Sunkanna (ST)	SCR Promoted against ST vacancy
20.	A. M. Sonawane (SC)	SWR Promoted against SC vacancy
21.	K. B. Thirupataiah (ST)	SCR Promoted against ST vacancy
22.	Hardeo Baitha (SC)	NER Promoted against SC vacancy
23.	Hira Lal (SC)	NR Promoted against SC vacancy

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 13th July 2012

No. ERB-I/2010/10/4—Shri Vidhu Kashyap, Chairman, Human Resource Reforms Committee, Railway Board, retired

voluntarily from service with effect from the forenoon of 4.7.2012.

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.6.2012 :—

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Shri A. K. Singh | Addl. Member (RS) |
| 2. Shri A. K. Nigam | Adviser (IR) |
| 3. Shri M. C. Jha | Joint Director |
| 4. Shri Anil Kumar Jain | Section Officer |
| 5. Shri Kunju Bhoopathy | Section Officer |
| 6. Shri Ram Teg Ram | Section Officer |

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 3rd July 2012

No. A-12025/1/2012-E.II—The President is pleased to appoint Shri Dhan Veer Sahu as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 2.4.2012 (F.N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 47/2/2011-R&R—In terms of section 82(5) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri S. K. Chaturveid as Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & UTs for a period of five years from the forenoon of 31st May, 2012 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

PRANAY KUMAR, Dir.

New Delhi, the 12th July 2012

No. 15/2012 (F. No. A-32013/3/2012-Adm.I)—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group A), the President is pleased to appoint the following

Officers in the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Scale of Rs. 37,000—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-, in the Central Electricity Authority, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	S/Shri/Ms.	
1.	Surata Ram	31.05.2012 (F/N)
2.	M. K. Khandelwal	31.05.2012 (F/N)
3.	Rishika Sharan	31.05.2012 (F/N)
4.	Rakesh Kumar	31.05.2012 (F/N)
5.	Ishan Sharan	31.05.2012 (F/N)
6.	D. K. Srivastava	31.05.2012 (F/N)
7.	Ram Chandra	31.05.2012 (F/N)

1	2	3
8.	Brief Lee Lyngkhoi	31.05.2012 (F/N)
9.	Bhupinder Singh	31.05.2012 (F/N)

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd July 2012

No. A-32013/1/2011-Admn.I—Consequent upon the acceptance of his request for reversion from the grade of Under Secretary (ad hoc) to the substantive grade of Section Officer (CSS) as conveyed by Department of Personnel & Training vide Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 21st March, 2012, the President is pleased to revert Shri S. Ravi Kumar, Under Secretary (ad hoc) of CSS (CSL No. 6883) to the substantive grade of Section Officer (CSS) with effect from 3.7.2012 (AN).

JITENDER KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012